



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2989]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2016/अग्रहायण 29, 1938

No. 2989]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2016/AGRAHAYANA 29, 1938

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4095(अ).— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः, उक्त अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र में अंतर्विष्ट ब्यौरे रेखांक संख्या सी- 1(ई)III/एफआर/932-0916, तारीख 29 सितम्बर, 2016 का निरीक्षण, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (भूमि और राजस्व विभाग) कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), केन्द्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड, गोंडवाना पॅलेस, कांके रोड, रांची - 834 001 के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या जिला कलक्टर, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले का पूर्वोक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति –

- (i) संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन पर आक्षेप कर सकेगा; अथवा
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन की गई किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभावित किसी क्षति के लिए अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 3 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; अथवा

- (iii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को सुपुर्द करेगा,

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर क्षेत्र या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भूमि और राजस्व विभाग, कोल ईस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर- 440 001 (महाराष्ट्र) को भेज सकेगा।

अनुसूची

इंदर यूजी से ओसी विस्तार खान

नागपुर क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

(रेखांक संख्या सी-1(ई)।।।/एफआर/932-0916, तारीख 29 सितम्बर, 2016)

सभी अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल हेक्टर में			कुल क्षेत्रफल	टिप्पणियां
					अभिधृति	सरकारी	वन		
1.	टेकाडी (भाग- क)	14	पारशिवनी	नागपुर	6.88	0.00	0.00	6.88	भाग
2.	टेकाडी (भाग- ख)	14	पारशिवनी	नागपुर	27.45	0.00	0.00	27.45	भाग
3.	गोंडेगांव (भाग- ख)	13	पारशिवनी	नागपुर	143.08	6.88	0.00	149.96	भाग
कुल :					177.41	6.88	0.00	184.29	

कुल क्षेत्र : 184.29 हेक्टर (लगभग)

या 455.38 एकड़ (लगभग)

ग्राम टेकाडी के अधिसूचित क्षेत्र के प्लॉट संख्यांक (भाग-क) :

641/1- 641/2- 641/3, 642/1- 642/2, 646/1- 646/2, 647, 623/1- 623/2- 623/3.

ग्राम टेकाडी के अधिसूचित क्षेत्र के प्लॉट संख्यांक(भाग-ख) :

614/1- 614/2, 615/1क- 615/1ख- 615/1ग- 615/2क- 615/2ख, 616, 617/1- 617/2, 618/1- 618/2, 619, 620/1- 620/2- 620/3.

ग्राम गोंडेगांव के अधिसूचित क्षेत्र के प्लॉट संख्यांक (भाग-ख) :

183/1/1- 183/2क- 183/2ख- 183/3/1- 183/3/2- 183/3/3- 183/4- 183/5, 186/1क- 186/2- 186/3, 187/1- 187/2क-187/2ख, 187/3क-187/3ख, 188/1-188/2-188/3, 188/4क- 188/4ख, 189, 190/1- 190/2, 191, 192,

193, 194/1- 194/2, 195, 196/1- 196/2- 196/3, 197/1- 197/2, 198, 199/1- 199/2, 200/1- 200/2- 200/3- 200/4- 200/5- 200/6- 200/7, 201/1- 201/2- 201/3, 202, 203/1- 203/2, 204 (सरकारी भूमि), सड़क, 205, 206/1- 206/2, 207/1- 207/2, 208/1क- 208/1ख- 208/1ग- 208/1घ- 208/2, 209, 210/1- 210/2- 210/3- 210/4, 211, 212, 213/1- 213/2- 213/3, 214/1- 214/2, 215/1- 215/2- 215/3, 216/1- 216/2, 217/1- 217/2, 221, 236/1क- 236/1ख- 236/2- 236/3- 236/4, 237/1- 237/2, 238/1-238/2-238/3-238/4, 329/1- 329/2.

सीमा वर्णन:

भाग – क

- क – ख : रेखा, ग्राम टेकाडी में बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और सड़क से लगकर होती हुई जाती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
- ख-ग-घ-ङ : रेखा, दक्षिण दिशा से गुजरती हुई सड़क से लगकर बिन्दु 'ग' और बिन्दु 'घ' से होती हुई बिन्दु 'ङ' पर मिलती है।
- ङ – च : रेखा, पश्चिम दिशा से होती हुई और बिन्दु 'च' पर मिलती है।
- च-छ-ज-झ : रेखा, उत्तर दिशा में इंदर विवृत खान और कामठी विवृत खान की सम्मिलित खनिपट्टा सीमा से होती हुई बिन्दु 'छ' और बिन्दु 'ज' से होकर बिन्दु 'झ' पर मिलती है।
- झ-ञ-क : रेखा, बिन्दु 'ञ' से होकर सड़क पार करती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

भाग - ख

- ट-ठ-ड : रेखा, ग्राम टेकाडी और गोंडेगांव की सम्मिलित ग्राम सीमा पर स्थित बिन्दु 'ट' से आरंभ होती है और बिन्दु 'ठ' से होकर इंदर विवृत खान और कामठी विवृत खान की सम्मिलित खनिपट्टा सीमा पर स्थित बिन्दु 'ड' पर मिलती है।
- ड-ढ-ब : रेखा, इंदर विवृत खान और कामठी विवृत खान की सम्मिलित खनिपट्टा सीमा से लगकर गुजरती हुई बिन्दु 'ढ' से होकर ग्राम पिपरी और गोंडेगांव की सम्मिलित ग्राम सीमा पर स्थित बिन्दु 'ब' से मिलती है।
- ब-भ-म : रेखा, ग्राम पिपरी और गोंडेगांव की सम्मिलित ग्राम सीमा से लगकर होती हुई बिन्दु 'भ' से होकर ग्राम जूनी कामठी और गोंडेगांव की सम्मिलित ग्राम सीमा पर बिन्दु 'म' से मिलती है।
- म – य : रेखा, ग्राम जूनी कामठी और गोंडेगांव की सम्मिलित ग्राम सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'य' पर मिलती है।
- य – त : रेखा, पूर्व दिशा से गुजरती है फिर उत्तर दिशा से होती हुई इंदर विवृत खान और गोंडेगांव विवृत खान की सम्मिलित खनिपट्टा सीमा पर स्थित बिन्दु 'त' से मिलती है।
- त – थ : रेखा, पूर्व दिशा से होती हुई जाती है और बिन्दु 'थ' पर मिलती है।
- थ-द-ध : रेखा, सीधे खरीद किए हुए क्षेत्र की सीमा से लगकर गुजरती हुई जाती है और बिन्दु 'द' से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ध' पर मिलती है।
- ध-न-प : रेखा, बिन्दु 'न' से होकर सीधे खरीद किए हुए क्षेत्र की सीमा से लगकर गुजरती हुई ग्राम टेकाडी और गोंडेगांव की सम्मिलित ग्राम सीमा पर स्थित बिन्दु 'प' पर मिलती है।
- प – ट : रेखा, ग्राम टेकाडी और गोंडेगांव की सम्मिलित ग्राम सीमा से लगकर गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'ट' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/25/2016-पीआरआईडब्ल्यू-1]

आर.पी.गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2016

S.O. 4095(E).—Whereas, it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And Whereas, the plan bearing number C-I(E)III/FR/932-0916, dated the 29th September, 2016, containing the details of the areas described in the said Schedule can be inspected at the office of the Western Coalfields limited (Land and Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001 (Maharashtra) or at the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi – 834 001 or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata – 700001 or at the office of the District Collector, Nagpur (Maharashtra);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from lands described in the said Schedule;

Any person interested in the land described in the said Schedules may,—

- (i) object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over the such land; or
- (ii) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 of the thereof ; or
- (iii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the Office of the Area General Manager, Western Coalfields Limited, Nagpur Area, Post Sasti, Tahsil Rajura, District Chandrapur (Maharashtra) – 442 701 or General Manager, Western Coalfields Limited, Land and Revenue Department, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001 (Maharashtra) within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Inder UG to OC Expansion Mine

Nagpur Area

District Nagpur (Maharashtra)

(Plan bearing number C-I (E) III/FR/932-0916, dated the 29th September, 2016)

All Rights :

Sl. No.	Name of Village	Patwari Circle number	Tahsil	District	Area (In hectares)			Total	Remarks
					Tenancy	Government	Forest		
1.	Tekadi (Part –A)	14	Parseoni	Nagpur	6.88	0.00	0.00	6.88	Part
2.	Tekadi (Part – B)	14	Parseoni	Nagpur	27.45	0.00	0.00	27.45	Part
3.	Gondegaon (Part – B)	13	Parseoni	Nagpur	143.08	6.88	0.00	149.96	Part
Total :					177.41	6.88	0.00	184.29	

Total area: 184.29 hectares (approximately)**or 455.38 acres (approximately)**

Plot numbers within acquisition area in village Tekadi (Part-A) :

641/1- 641/2- 641/3, 642/1- 642/2, 646/1- 646/2, 647, 623/1- 623/2- 623/3.

Plot numbers within acquisition area in village Tekadi(Part-B) :

614/1- 614/2, 615/1A- 615/1B- 615/1C- 615/2A- 615/2B, 616, 617/1- 617/2, 618/1- 618/2, 619, 620/1- 620/2- 620/3.

Plot numbers within acquisition area in village Gondegaon(Part-B) :

183/1/1- 183/2A- 183/2B- 183/3/1- 183/3/2- 183/3/3- 183/4- 183/5, 186/1A- 186/2- 186/3, 187/1- 187/2A-187/2B, 187/3A-187/3B, 188/1-188/2-188/3, 188/4A- 188/4B, 189, 190/1- 190/2, 191, 192, 193, 194/1- 194/2, 195, 196/1-

196/2- 196/3, 197/1- 197/2, 198, 199/1- 199/2, 200/1- 200/2- 200/3- 200/4- 200/5- 200/6- 200/7, 201/1- 201/2- 201/3, 202, 203/1- 203/2, 204 (Government land), Road, 205, 206/1- 206/2, 207/1- 207/2, 208/1A- 208/1B- 208/1C- 208/1D- 208/2, 209, 210/1- 210/2- 210/3- 210/4, 211, 212, 213/1- 213/2- 213/3, 214/1- 214/2, 215/1- 215/2- 215/3, 216/1- 216/2, 217/1- 217/2, 221, 236/1A- 236/1B- 236/2- 236/3- 236/4, 237/1- 237/2, 238/1-238/2-238/3-238/4, 329/1-329/2.

Boundary description :

Part – A

- A – B : Line starts from Point 'A' in village Tekadi passes along the road and meets at Point 'B' along the road.
- B-C-D-E : Line passes in South direction through Point 'C' and 'D' along the road and meets at Point 'E'.
- E – F : Line passes in West direction and meets at Point 'F'.
- F-G-H-I : Line passes in North direction along the common mining lease boundary of Inder and Kamptee Opencast Mine, then passes through Point 'G' and 'H' and meets at Point 'I'.
- I – A : Line passes through Point 'J' crosses the road and meets at starting Point 'A'.

Part – B

- K-L-M : Line starts from Point 'K' on common village boundary of village Tekadi and Gondagaon then passes through Point 'L' and meets at point 'M' on common mining lease boundary of Inder Opencast Mine and Kamptee Opencast Mine.
- M-N-W : Line passes along the common mining lease boundary of Inder Opencast Mine and Kamptee Opencast Mine, then passes through Point 'N' and meets at Point 'W' on common village boundary of villages Pipri and Gondagaon.
- W-X-Y : Line passes along the common village boundary of village Gondagaon and Pipri, then passes through Point 'X' and meets at Point 'Y' on common village boundary of villages Gondagaon and Juni Kamptee.
- Y – Z : Line passes along the common village boundary of villages Gondagaon and Juni Kamptee and meets at Point 'Z'.
- Z – P : Line passes in Eastern direction and then in North direction and meets at Point 'P' on common mining lease boundary of Inder Opencast Mine and Gondagaon Opencast Mine.
- P – Q : Line passes in East direction and meets at Point 'Q'.
- Q-R-S : Line passes along the boundary of area acquired through direct purchase then passes through Point 'R' and meets at Point 'S'.
- S-T-U : Line passes through point 'T' then passes along the boundary of area acquired through direct purchase and meets at Point 'U' on common village boundary of villages Gondagaon and Tekadi.
- U – K : Line passes along the common village boundary of villages Gondagaon and Tekadi and meets at starting Point 'K'.

[F. No. 43015/25/2016-PRIW –I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.